

Date: September 07, 2023

<p>To, Chief Manager Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited (NSE) Exchange Plaza, Plot no. C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -400 051</p> <p><u>Scrip Symbol: WEL</u> <u>ISIN: INE02WG01016</u></p>	<p>To, BSE Limited Corporate Relation Department 1st Floor, New Trading Ring Rotunga Building Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001</p> <p>Scrip Code: 543449</p>
--	--

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENTS OF 14TH AGM TO BE HELD ON 28TH SEP 2023 THROUGH VC/ OAVM

Dear Sir/Madam,



Pursuant to Regulation 30 & 47 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and in continuation with our letter dated September 05, 2023, we hereby enclose copies of advertisement published in the **Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated September 07, 2023** confirming completion of dispatch of 14th AGM Notice and Annual Report for the financial year 2022-2023 and other required information in this regard.

The newspaper publications are also made available on our website at www.wonderelectricals.com.

You are requested to kindly take above information on your records.

Thanking you,

For Wonder Electricals Limited



Dhruv Kumar Jha
Company Secretary & Compliance Officer
Membership. No. A70626

Encl: As above

013254
11M Road, NA Ahmedabad, Gujarat 380015, India
26303074
techrenewables@gmail.com
wables.com

Shares from the Shareholders of
noted by
Meenakshi Gupta

Detailed Public Statements being issued by Corporate
Meenakshi Gupta and Mrs. Meenakshi Gupta ('Acquirers')
in respect of the Takeover Open Offer to acquire shares of
'Target Company'. The Detailed Public Statement ('DPS')
was published on Wednesday in Financial Express (English) (All Editions),
(Marathi) (Mumbai Edition).

Price being in compliance with the applicable regulations
of IDC (English) (Ahmedabad Editions) and Pratahkal (Marathi)

Shareholders of 'KRL' whose names appear in its Register
is also available on SEBI's website, www.sebi.gov.in
to the Offer, www.corporateprofessionals.com and
website. Further, in case of non-receipt/non-availability
paper along with the following details:

Shareholders and intend to participate in the Open Offer shall
submit bids on the Designated Stock Exchange platform with
their respective Selling Broker and tender Shares in
Annexure B.11 of the Letter of Offer.

Shareholders and intend to participate in the Open Offer shall
submit bids on the Designated Stock Exchange platform with
their respective Selling Broker and tender Shares in
Annexure B.11 of the Letter of Offer.

Shareholders and intend to participate in the Open Offer shall
submit bids on the Designated Stock Exchange platform with
their respective Selling Broker and tender Shares in
Annexure B.11 of the Letter of Offer.

Shareholders and intend to participate in the Open Offer shall
submit bids on the Designated Stock Exchange platform with
their respective Selling Broker and tender Shares in
Annexure B.11 of the Letter of Offer.

ORIGINAL DATE AND DAY	REVISED DATE AND DAY
03, 2023 Monday	April 03, 2023 Monday
07, 2023 Wednesday	April 12, 2023 Wednesday
10, 2023 Thursday	April 20, 2023 Thursday
08, 2023 Monday	May 08, 2023, Monday
02, 2023 Wednesday	August 25, 2023 Friday
04, 2023 Wednesday	September 04, 2023 Monday
09, 2023 Tuesday	September 07, 2023 Thursday
26, 2023 Friday	September 05, 2023 Tuesday
03, 2023 Wednesday	September 08, 2023 Friday
13, 2023 Tuesday	September 22, 2023 Friday
17, 2023 Tuesday	October 10, 2023 Tuesday

Shareholders of the Target Company to whom the
offer of equity shares of the Target Company (except the
shares of the promoter and promoter group of the Target
Company) are eligible to participate in the Offer

Shareholder (CIN) has been updated in LOO due to a change in
13254, and this change has been duly incorporated in

Shareholder Allotment made on July 10, 2023, and necessary

Shareholders to *All the shareholders of the Target Company who
are acquirers, person acting in concert with the Acquirers,
Company, person acting in concert with the member of
(as defined below). However, kindly note that the Target
Company, to whom shares are issued under the preferential
offer meeting held on April 03, 2023, does not have any

Shareholders (SAST) Regulations, 2011 the shares allotted to
the account has been kept in the escrow account and no such
shares and necessary changes w.r.t the same has been



वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सीआईएन: L31900DL2009PLC195174
रजि. कार्यालय: 45, नूतन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
फेज-III, नई दिल्ली-110020

ईमेल आईडी:- info@wonderelectricals.com | वेबसाइट: www.wonderelectricals.com

14वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (पूर्व में वंडर फाइनेंशियल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('कम्पनी') के
शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि चौदहवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार,
28 सितंबर, 2023 को 2.00 बजे अप. आईएलटी में नोडिस में निर्धारित व्यवसायों को संबोधित करने के
लिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/व्यक्त
ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
एजीएम और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत
व्यवसायिक विवरण एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट की केबल इलेक्ट्रॉनिक
मॉड में प्रतियां ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जायेंगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण
एजेंट (आरटीए) अथवा संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेजों का प्रेषण
मंगलवार, 5 सितंबर, 2022 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोडिस की
भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया
गया है।

14वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-23 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट
www.wonderelectricals.com तथा दोनों स्टॉक एक्सचेंज वीएसई लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा नेशनल
सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting@nsdl.com पर भी
उपलब्ध होगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान :
एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के
नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन वारिंट तथा उद्घाटन अधिका) विनियम, 2015 के विनियमन 44,
आईसीएसआई द्वारा जारी साधारण सभा पर सचिवालयी मानकों-2 (रएसएन-2) तथा एमसीए सर्वेयलर एवं
सेबी सर्वेयलर के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी 14वीं एजीएम
में पारित होने के लिये प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मतदान करने में सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को रिपोर्ट
ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान
करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए
एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

सूचना तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी
ने, रूबिना शेरमा एंड एसोसिएट्स कम्पनी सेक्रेटरीज के प्रोवाइडर सुश्री रूबिना शेरमा, कार्यरत कम्पनी
सचिव (सदस्यता सह FCS9277) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है
कि अधोलिखित का ध्यान रखें।
रिपोर्ट ई-वोटिंग सोमवार, 25 सितंबर, 2023 (9.00 बजे पूर्व, आईएलटी) में शुरू होगी तथा बुधवार,
27 सितंबर, 2023 (5.00 बजे अप. आईएलटी) में बंद होगी। उसके बाद मतदान के लिये एनएसडीएल द्वारा
रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद शेयरधारकों को
इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस अभाव में दौरान डिजिटल/ऑनलाइन पद्धति में
शेयर धारित करने वाले कम्पनी के शेयरधारकों को फॉट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को
शेयर धारित करते हैं। एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर
सकते हैं।

वित्त सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हैं, वे वीसी/ओएवीएम द्वारा
आयोजित होने वाली एजीएम में भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन पुनः मतदान करने के लिये अधिकृत
नहीं होंगे। शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के उपरान्त उन्हें उसमें परिवर्तन की
अनुमति नहीं दी जायेगी।

शेयरधारकों का मतारिक्तार (रिपोर्ट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के लिये) गुरुवार, 21 सितंबर,
2023 ('फोट-ऑफ तिथि') को कम्पनी की प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक शेयर पंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।
जिस व्यक्ति का नाम फोट-ऑफ तिथि को शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिपोर्ट ई-वोटिंग
शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रकृतित लाभमोनी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, केवल वे ही रिपोर्ट ई-वोटिंग
के साथ-साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
यदि कोई व्यक्ति 14वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी
का शेयरधारक बनते हैं तथा फोट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे एजीएम की सूचना की दिपॉजिटरी
में दर्ज प्रस्तावों पर मतदान करने के निर्देशों का अनुसरण करें। जो व्यक्ति फोट-ऑफ तिथि को शेयरधारक
नहीं हैं, वे इस एजीएम सूचना को केवल जानकारी के लिये ही देखें। डिजिटल/ऑनलाइन पद्धति में शेयरधारित
करने वाले शेयर धारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं के लिये
'रिपोर्ट ई-वोटिंग' तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में विस्तार से दी गई
है।

रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा एजीएम किये गये मतदान के परिणामों की घोषणा एजीएम की पूर्णता से अधिकतम
दो कार्य दिवसों में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी की वेबसाइट अर्थात्
www.wonderelectricals.com में पर उसकी घोषणा के तत्काल बाद प्रदर्शित किया जायेगा तथा उक्त
एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting@nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कम्पनी के शेयर
सूचीबद्ध हैं (अर्थात् एनएसई/बीएसई) पर भी अप्रसारित किया जायेगा।
यदि रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित आपका कोई प्रश्न अथवा सट्टया हो तो आप
सहायता खंड के अंतर्गत www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions
(FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा helpdesk.evoting@nsdl.com पर ई-मेल लिखें
अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टेकूड बिल्डिंग, 'ए' विंग, 4था
तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बाघत मार्ग, लोकप्रिय, मुंबई-400013, सम्पर्क नं. 022-24994545,
ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क करें।

निवेशक मंडल के आदेशानुसार
कृपे नैसर्ग वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ता / -
बुध कुमार झा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: AV0828

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06.09.2023



VIKAS LIFECARE LIMITED

CIN - L25111DL1995PLC073719
REGD OFF: G-1,VIKAS HOUSE, 34/F, EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI -110026,
PH NO: 011-40450110 EMAIL - info@vikaslifecarelimited.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Vikas Lifecare Limited will
be held on Saturday, September 30, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/
OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), General Circular Nos.14/2020
and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020,
General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020,
General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, and
General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022,
respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos.